

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-4
संख्या- /XX-4 / 2021-1(37) / 2020
देहरादून : दिनांक 20 मई, 2021

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड कारागार विभाग में वरिष्ठ कारागार अधीक्षक पर नोशनल पदोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुति दिनांक 20-04-2021 के क्रम में श्री दधिराम, कारागार अधीक्षक वेतन लेवल-10 (वेतनमान रू0 56,100-1,75,500) को दिनांक 04-06-2015 से वरिष्ठ कारागार अधीक्षक, वेतन लेवल-11 (वेतनमान रू0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप कार्मिक द्वारा वर्तमान नियुक्ति स्थान जिला कारागार, देहरादून में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 505/XX-4 / 2020-1(37) / 2020, तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (मा0 गृहमंत्री), उत्तराखण्ड शासन।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 6- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त प्रोन्नति/विज्ञप्ति को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 7- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा कारागार मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शिक्खाण)
अनु सचिव।